



March 14, 2023

BSE Limited
Floor 25, P. J. Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Scrip Code: **530019**

Symbol: **JUBLPHARMA**

Dear Sirs,

Sub.: Submission of copies of newspaper advertisements for Postal Ballot

Dear Sirs,

In continuation of our letter dated March 13, 2023, we enclose herewith copies of the advertisements published on March 14, 2023, in Mint (All editions-English language) and Hindustan (Hindi language), with respect to the completion of dispatch of notices of Postal Ballot.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Jubilant Pharmova Limited

Naresh Kapoor
Company Secretary

Encl.: as above

A Jubilant Bhartia Company

OUR VALUES



Jubilant Pharmova Limited

1-A, Sector 16-A,
Noida-201 301, UP, India
Tel: +91 120 4361000
Fax: +91 120 4234895-96
www.jubilantpharmova.com

Regd Office:
Bhartiagram, Gajraula
Distt. Amroha - 244 223
UP, India
CIN : L24116UP1978PLC004624



MINT SHORTS

Sanofi agrees to buy Provention Bio in a \$2.9 billion deal

Sanofi agreed to buy Provention Bio Inc. in a \$2.9 billion deal intended to bolster the French drugmaker's portfolio of diabetes medicines with a new therapy recently approved in the US. The takeover builds on an agreement between the two companies for the commercialization of the drug, a monoclonal antibody for the delay of clinical type 1 diabetes developed by Provention Bio. **BLOOMBERG**

Pfizer signs \$43 bn deal in cancer drug push

Reuters
feedback@livemint.com

Pfizer Inc on Monday struck a roughly \$43 billion deal for Seagen Inc to bulk up its cancer treatments portfolio, as the drugmaker braces for a steep fall in covid-19 product sales and loss of exclusivity for some top sellers. The deal, Pfizer's biggest in a string of acquisitions after a once-in-a-lifetime cash windfall from its covid-19 vaccine and pill, will add four approved cancer therapies with combined sales of nearly \$2 billion in 2022.

Pfizer will pay \$229 in cash per Seagen share, a 32.7% premium to Friday's closing price. The offer is also a nearly 42% premium to the stock's close on 24 February, a day before the *Wall Street Journal* first reported on a possible deal. Seagen's shares rose to \$207 before the bell on Monday.

Pfizer has hit the deals route in its quest to mitigate the impact from an anticipated \$17 billion drop in revenue by 2030 due to patent expirations for top drugs and decline in demand for its covid products.

"While Pfizer still has more firepower to do deals, we think integrating such a large company could make (Pfizer) take a pause on M&A front," Wells Fargo analyst Mohit Bansal said in a research note.

The drugmaker expects more than \$10 billion in "risk-adjusted" sales from Seagen in 2030. Washington-based Seagen is a pioneer of antibody-drug conjugates, which work like "guided missiles" designed for a targeted destructive effect and spare healthy cells.

Biden vows to hold banks accountable, reassures mkts

He said all customers who had deposits at both banks can "rest assured they'll be protected"

Bloomberg
feedback@livemint.com

President Joe Biden sought to reassure jittery consumers and markets that the US financial system is on solid footing, promising to hold those responsible for the collapse of two banks to account and saying he would urge Congress to strengthen regulation of the banking system.

"Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them," Biden said Monday at the White House after the collapse of Silicon Valley Bank and Signature Bank raised fears of a full-blown banking crisis.

The president said all customers who had deposits at both banks can "rest assured



President Joe Biden speaks about the banking system in the Roosevelt Room of the White House in Washington on Monday. AP

they'll be protected and they'll have access to their money as of today."

Biden said no losses would be borne by taxpayers, that he would ask Congress to strengthen banking regulations and that those responsible for the banks' collapses would be held accountable.

"Investors in the banks will

not be protected," he said. "They knowingly took a risk and when the risk didn't pay off investors lose their money. That's how capitalism works"

US authorities took extraordinary measures Sunday to shore up confidence following the bank failures, including a new backstop for banks that Federal Reserve officials said

was large enough to guarantee the nation's deposits. The collapse of SVB Financial Group last week is the second-largest bank failure in the US history, stoking concerns about oversight of the industry.

Meanwhile, the US Federal Deposit Insurance Corporation has transferred all deposits of Silicon Valley Bank to a newly created bridge bank and all depositors will have access to their money beginning Monday morning, the financial regulator said.

In a statement, the FDIC said all customers of SVB would automatically become customers of the bridge bank, which will hold "normal banking hours and activities, including online banking."

The announcement by the Federal Reserve and Federal Deposit Insurance Corp. came near the end of a frantic week-

end that saw the collapse of the New York-based Signature Bank along with mounting concerns about spillover effects from SVB and Signature on other regional lenders and the broader economy.

A financial crisis would pose a major challenge to Biden ahead of the expected launch of his 2024 reelection campaign. Republicans have accused the president's policies of fueling inflation, while some on the left have questioned the pace of the Fed's rate hikes.

In a related development, HSBC Holdings Plc is buying the UK arm of Silicon Valley Bank, the culmination of a frantic weekend where ministers and bankers explored various ways to avert the SVB unit's collapse.

Reuters contributed to this story

Rolex accelerates Swiss production to meet demand



Rolex SA will create three temporary production facilities that will begin churning out luxury watches in 2025, as the world's largest maker of high-end timepieces seeks to boost output amid unprecedented demand for its products. The capacity follows plans to spend \$1.1 billion on a major new production site in Bulle, also in the canton of Fribourg, that is expected to commence operations in 2029. **BLOOMBERG**

'Everything Everywhere' all-conquering at Oscars

Hollywood, US: Sci-fi film *'Everything Everywhere All at Once'* dominated the Oscars, winning seven golden statuettes including best picture. The movie also won best director, best actress, best original screenplay, best editing, and both the best supporting actor and actress prizes. Michelle Yeoh, who is Malaysian, became the first ever Asian woman to win best actress. **AFP**

Biden hosts UK, Australia to reveal anti-China submarine pact

Washington: Leaders of the US, Australia and Britain are set to unveil plans to provide Australia with nuclear-powered submarines on Monday, in a major push against China's ambitions in the Indo-Pacific. US President Joe Biden, Australian PM Anthony Albanese and British PM Rishi Sunak will endorse details of the so-called AUKUS project, which was first announced in 2021, at the US naval base in San Diego, California. **REUTERS**





Income Tax Department
Central Board of Direct Taxes

Attention Taxpayers

e-Verification Scheme, 2021

Any objection to the displayed financial transaction in AIS? We will verify from the source



DISAGREE

AGREE

- Check financial transactions available in AIS tab of your income tax account at www.incometax.gov.in
- If you disagree, raise an objection. We will check with the Source

- If the mismatch continues, notice under the e-Verification Scheme may be issued.
- In such cases, return of income can be updated u/s 139(8A) of the IT Act, 1961, subject to eligibility.

- All proceedings are conducted electronically under e-Verification Scheme, 2021.
- Your response to the notice may help in closure of the matter.
- Promote Voluntary Tax Compliance.

For e-Brochures, Scan QR Code

Helpline 18001034215

FAQs on e-Verification Scheme, 2021 (Available on QR code and www.incometax.gov.in)

For more information, scan QR Code

[@incometaxindiaofficial](https://www.facebook.com/incometaxindiaofficial)
[@incometaxindia.official](https://www.instagram.com/incometaxindia.official)
[@IncomeTaxIndia](https://twitter.com/IncomeTaxIndia)
[@IncomeTaxIndia](https://www.youtube.com/IncomeTaxIndia)
[@IncomeTaxIndia.Official](https://www.linkedin.com/company/IncomeTaxIndia.Official)



Jubilant Pharmova Limited
(CIN: L24116UP1978PLC004624)
Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244223, Uttar Pradesh, India
Email: investors@jubl.com; Website: www.jubilantpharmova.com
Phone: +91-5924-267437

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, (the 'Act') read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular Nos. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA Circulars'), and other applicable provisions of the Act and the Listing Regulations, circulars and notifications issued thereunder (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), the Company has sent an E-mail along with the Postal Ballot notice dated March 7, 2023 through National Securities Depository Limited ('NSDL') on March 13, 2023, and the Login ID with password to the Members for e-voting who have registered their E-mail IDs with the Depository Participants or with the Company as on March 3, 2023 ("**Cut-off Date**"), for seeking approval of the Members of the Company by way of Special Resolution for Appointment of Mr. Shirish G. Belapure as an Independent Director. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Rupinder Singh Bhatia, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS-2599, CP-2514), as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process.

Members shall be able to provide their assent or dissent through e-voting only. The Company has entered into an agreement with NSDL for facilitating e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice. Members are requested to note that e-voting shall commence from **Tuesday, March 14, 2023, 9.00 A.M. (IST)** and shall end on **Wednesday, April 12, 2023, 5.00 P.M. (IST)**. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

In accordance with the above mentioned MCA Circulars, physical copies of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot forms and prepaid Business Reply Envelope are not being sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only.

The voting rights of Members shall be reckoned as on March 3, 2023, which is the Cut-off date. The copy of the Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.jubilantpharmova.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com/>. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above mentioned websites.

Process for those shareholders whose email ids are not registered

- In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors@jubl.com or rt@alankit.com.
- In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to investors@jubl.com or rt@alankit.com.

In case of any queries or grievances relating to e-voting, you may contact Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President, NSDL, Trade World, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India through e-mail at evoting@nsdl.co.in or on 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or Mr. J.K. Singla, Deputy General Manager, M/s. Alankit Assignments Limited, 205-208, Anar Kali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110 055, India through email at rt@alankit.com or on Telephone No.: 011-42541234.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or in his absence to the Company Secretary after the completion of scrutiny of the voting, and the results will be announced on or before April 14, 2023. The results of the Postal Ballot shall be communicated to the Stock Exchanges and will be displayed on the Company's website at www.jubilantpharmova.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and at the Registered Office of the Company.

For Jubilant Pharmova Limited
Sd/-
Naresh Kapoor
Company Secretary
ACS No: 11782

Date: March 13, 2023
Place: Noida

cbc 15401/13/0019/2223

33 हजार लोगों की रिटर्न और विभाग की जानकारी में अंतर करदाताओं ने जवाब न दिया तो होगी कार्रवाई

सख्ती

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। आयकर विभाग ऐसे 33 हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है जो अपने रिटर्न और विभाग के पास मौजूद जानकारी के बीच अंतर से पैदा हुए सवालों का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। विभाग के मुताबिक ई-सत्यापन सुविधा के बावजूद कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं। वित्त वर्ष 2019-20 से जुड़े करीब 68 हजार मामलों को शामिल किया गया था। करदाता की जानकारी और विभाग के पन्चुअल इनफॉर्मेशन सिस्टम की जानकारी में अंतर पाया गया था। विभाग में करदाता को ईमेल, एसएमएस या फिर टैक्स पोर्टल से इसकी जानकारी दी और कई लोगों ने जानकारी को अपडेट कर दिया है।

संतोषजनक जवाब पर ही होगा मामला बंद

एक अधिकारी के मुताबिक अगर ये लोग रिटर्न संशोधित कर दें और विभाग की जानकारी से वो मेल खा जाती है या जवाब संतोषजनक पाए जाते हैं तो मामला वहीं बंद हो जाएगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। नोटिसों का जवाब न देने वालों को टैक्स विभाग विधि भी भेजने की तैयारी में है।

कई स्रोतों से जानकारी जुटाता है टैक्स विभाग

विभाग के पास अलग अलग स्रोतों से जानकारी आती है। इनके आधार पर करदाता का एआईएस तैयार किया जाता है। रिटर्न दाखिल किए जाने के बाद एआईएस की जानकारी से अलग होती है तो अधिकारी संबंधित जानकारी देने वाले विभाग से इस बारे में पड़ताल भी करते हैं। अगर रिटर्न में ही गलती समझ आती है तो करदाता को सूचित किया जाता है।

रिटर्न अपडेट से बढ़ी सरकार की कमाई

सरकार ने आयकरदाताओं को सालाना रिटर्न में हुई किसी गड़बड़ी को ई-सत्यापन के जरिए सुधारने का मौका भी दे रखा है। फिलहाल इस साल 31 मार्च तक वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न अपडेट किए जा सकते हैं। मंत्रालय के मुताबिक सरकार को आयकरदाताओं के द्वारा दाखिल की गई अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से 1250 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है।

सिलिकॉन वैली के बाद एक और अमेरिकी बैंक डूबा

संकट

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। अमेरिका में एक और बैंक दिवालिया हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब सिग्नेचर बैंक के डूबने की खबर आई है। एक तरफ सिलिकॉन वैली बैंक जहां स्टार्टअप और बॉन्ड में भारी निवेश के चलते चूबा वहीं सिग्नेचर बैंक क्रिप्टोकॉरसी कारोबार में ज्यादा एक्सपोजर के चलते संकट में आ गया।

'वित्तीय प्रणाली मजबूत'

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार को देशवासियों से कहा कि देश की वित्तीय प्रणाली मजबूत है। वेस्ट कोस्ट जाने से पहले रूजवेल्ट रूम से उन्होंने कहा, अमेरिकी भरोसा कर सकते हैं कि देश की बैंक व्यवस्था सुरक्षित है। जब आपको जरूरत होगी, आपका जमा पैसा आपको मिल जाएगा।



स्टार्टअप पर मंडरता खतरा दूर हुआ: राजीव चंद्रशेखर: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सिलिकॉन वैली बैंक पर अमेरिकी सरकार की कार्रवाई पर कहा कि भारतीय स्टार्टअप पर मंडरता खतरा नहीं हो गए हैं। चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, अमेरिकी सरकार की कार्रवाई के साथ, भारतीय स्टार्टअप पर मंडरता खतरा गुजर गया है।

हिन्दुस्तान वलासीफाइड

● व्यापार

● विफिता एवं स्वास्थ्य श्रेणियां

● ग्राम/आय

● मेडिकल

SEX PROBLEM

बचपन की गलतियों के कारण आयी सभी सेक्स समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सलाह द्वारा ववा का सेवन करें और 15 घंटे दिन में फर्क देखें

सर्किट 999 महीना

घर बैठे दवा मंगवायें

सन्ध्यासी आयुर्वेद 2284, कोडिया पुल चोक, पुणे, महाराष्ट्र

● बंगोलपुरी ● कालकाजी की सलाह: 8527001155

सन्ध्यासी आयुर्वेद

सिखार का 20 से सलाह लें

● बंगोलपुरी ● कालकाजी की सलाह: 8527001155

सेक्स समस्याएँ छोटपन से निराशा क्यों?

मात्र 300/- 500/-

हमारे इलाज से 12 घंटों में असर शुरू

शीघ्रपतन, यौन समस्याएँ, स्वच्छंदता, घात जवाना, छोटपन, पतलापन, टेढ़ापन दूर कर क्षमता बढ़ायें।

18 से 80 वर्ष तक के लिए लाभदायक

फोन कर 30 से सलाह लें

GAYATRI AYURVEDASHRAM

9709083648 9709083686

ज्योतिष

ऑल इंडिया खुला चैलेंज

18वीं में हर प्रश्न का प्रचंड सम्पूर्ण समाधान

तारिका मास्टर किंग वान

बाबा खान बंगाली

घर बैठे सभी समाधान

स्पेशलिस्ट : लवमैरिज, मनवाहा प्यार, गृहकल्लेय, शादी, नौकरी, कारोबार में बाधा, पति, पत्नी अनवबन, सौतन, दुश्मन घुटकार, प्यार में धोखा, सभी जगह से निराशा फोन करें।

7078471281

ऑल इंडिया खुला चैलेंज

हम कहते नहीं कर के दिखाने हैं, 10 वर्षों से एक ही नाम और एक ही स्थान

गुरु मलिक जी

स्पेशलिस्ट मुहब्बत उरी 3.प्र. रख लिया है और भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जायेगा।

खोया- पाया

श्रीमती मीनू शर्मा पुत्री श्री रमेश चंद शर्मा निवासी प्रभात मार्केट गोविंद नगर लाइन नगर पत्नी नंबर 2 शहर व जिला मुरादाबाद के बेनामा दिनांक 14 सितम्बर 1 जिल्द संख्या 1562 पृष्ठ संख्या 209 से 260 पर क्रमंक 3127 सब रजिस्टार मुरादाबाद जिल्द श्री प्रेम शंकर आदि द्वारा श्रीमती सीमा सक्सेना के हक में पंजीकृत किया था जो स्थितिव लाईस नं. 17.02.2023 को भंग गया है। जिसे मिले वह मुझे सूचना दे 7055583416

जो भी बेटा, बेटा, भाई, बहन प्यार में धोखा देवाये हुए हैं वो एक बार हमें जरूर शांति करके

बाबा नजाल शर्मा

रिपली अनाथ के बेनाम बादशाह चैलेंज देते वालों से सावधान

जो भी बेटा, बेटा, भाई, बहन प्यार में धोखा देवाये हुए हैं वो एक बार हमें जरूर शांति करके

बाबा नजाल शर्मा

रिपली अनाथ के बेनाम बादशाह चैलेंज देते वालों से सावधान

जो भी बेटा, बेटा, भाई, बहन प्यार में धोखा देवाये हुए हैं वो एक बार हमें जरूर शांति करके

बाबा नजाल शर्मा

रिपली अनाथ के बेनाम बादशाह चैलेंज देते वालों से सावधान

जो भी बेटा, बेटा, भाई, बहन प्यार में धोखा देवाये हुए हैं वो एक बार हमें जरूर शांति करके

बाबा नजाल शर्मा

रिपली अनाथ के बेनाम बादशाह चैलेंज देते वालों से सावधान

जो भी बेटा, बेटा, भाई, बहन प्यार में धोखा देवाये हुए हैं वो एक बार हमें जरूर शांति करके

बाबा नजाल शर्मा

रिपली अनाथ के बेनाम बादशाह चैलेंज देते वालों से सावधान

जो भी बेटा, बेटा, भाई, बहन प्यार में धोखा देवाये हुए हैं वो एक बार हमें जरूर शांति करके

बाबा नजाल शर्मा

रिपली अनाथ के बेनाम बादशाह चैलेंज देते वालों से सावधान

स्पेशलिस्ट मनवाहा प्यार करना तुड़वाना, लव मैरिज, Lower मनवाना, घरवाले मनवाना, घर बैठे 3 घंटे में तुरंत समाधान।

शास्त्रीजी - 07939 46023

खुदरा मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट

नई दिल्ली, एजेंसी। खाने का सामान एवं ईंधन की कीमतों में नरमी के बीच खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में मामूली घटकर 6.44 प्रतिशत पर रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 6.52 प्रतिशत और फरवरी, 2022 में 6.07 प्रतिशत थी।

खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर फरवरी में घटकर 5.95 फीसदी रही जो जनवरी के छह प्रतिशत से कम है। नवंबर और दिसंबर, 2022 को छोड़कर खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी, 2022 के बाद से आरबीआई के संतोषजनक दायरे की ऊपरी सीमा छह प्रतिशत से ऊपर रही है। आरबीआई ने 2022-23 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति चार प्रतिशत रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है।

निश्चित आय योजना से 13,815 करोड़ निकाले

नई दिल्ली, एजेंसी। निवेशकों ने निश्चित आय वाली यानी बॉन्ड में निवेश से जुड़ी म्यूचुअल फंड योजनाओं से फरवरी में 13,815 करोड़ रुपये निकाले। इसके साथ ही नीतिगत दर में वृद्धि का दौर जल्दी समाप्त होने की उम्मीदों के बावजूद लगातार तीसरे महीने म्यूचुअल फंड से निकासी हुई है।

इससे पहले ऐसे कोषों से जनवरी में 10,316 करोड़ रुपये जबकि दिसंबर में 21,947 करोड़ रुपये निकाले गए थे। एम्विपिआन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अनुसार, नवंबर 2022 में म्यूचुअल फंड्स में 3,668 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। निश्चित आय वाले कोष की 16 श्रेणियों में से नौ में समीक्षाधीन महीने में निकासी हुई जबकि शेष छह में निवेश हुआ।

नवंबर तक अवधि के निवेश वाले कोष से भारी निकासी हुई। मॉनिस्टार इंडिया की शोध प्रबंधक ने कहा कि निवेशक अन्य संपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। एएविकएय मिलने से भी निवेशक बॉन्ड के बजाए इसे तरजीह दे रहे हैं।

अमेरिकी बैंकों के डूबने से निवेशकों में घबराहट

मुंबई, एजेंसी। घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी रही और संसेक्स करीब 900 अंक का गोता लगाकर 59,000 के नीचे बंद हुआ। यह संसेक्स का पांच महीने का निचला स्तर है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) के विफल होने के बीच बैंक, वित्तीय और वाहन शेयरों में भारी बिकवाली से घरेलू बाजार में गिरावट रही। सोमवार को गिरावट के साथ निवेशकों की संपत्ति 4.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक घट गई। संसेक्स शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सका और अंत में 897.28 अंक की गिरावट के साथ 58,237.85 अंक पर बंद हुआ।

सोना-चांदी में तेज उछाल

नई दिल्ली, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में मजबूत रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सरफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 970 रुपये की तेजी के साथ 56,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 55,580 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 1,600 रुपये उछलकर 63,820 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।

ईपीएफओ ने तारीख बढ़ाई

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारियों योजना, 1995 के अंतर्गत पात्र पेंशनभोगी ज्यादा पेंशन की योजना का लाभ लेने के लिए अब तीन मई तक आवेदन कर सकते हैं। सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के लिए इस योजना की अंतिम तिथि पहले तीन मार्च, 2023 थी। श्रम मंत्रालय ने कहा, अब कर्मियों/नियोक्ताओं के संप, चोयमैन की मांग पर केंद्रीय न्यायी बोर्ड ने ऐसे कर्मियों से आवेदन लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीन मई, 2023 करने का निर्णय लिया है।

रेसा जोश भुला दे होश

विग्रोमेन

माइट / पॉवर टैबलेट

शक्ति • जोर • क्षमता

आपके नजदीकी केमिस्ट पर उपलब्ध। आयुर्वेदिक औषधि

Customer Care No. 783 783 40 40

Distributor Meerut: Bhatia Medical Stores 9358430440

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि.

35, पिन्ना रोड, मुरादाबाद, फोन : 2493332

मुख्यालय: उपभोक्ता भवन, यालाकदर रोड, लखनऊ

पत्रांक- 445/उप्रसम/ग.ख.ई-टेंडर/पसिम-हैण्डलिंग/23-24 दिनांक:- 10-03-2023

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

यूपीओ उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (UPSS) में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले गेहूँ को जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित / प्रस्तावित क्रय केन्द्रों पर गेहूँ के परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्य हेतु मुरादाबाद मण्डल के जनपद मुरादाबाद, सम्भल एवं रामपुर के क्रय केन्द्रों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्राप्त मूल्य, धरोहर धनराशि, निविदा विशिष्टीकरण, निविदा खुलने की तिथि एवं अन्य सम्बन्धित जानकारी <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीओ उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (UPSS) मुरादाबाद के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

क्षेत्रीय प्रबंधक
यूपी.एस.एम., मुरादाबाद

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ई-निविदा सूचना

विद्युत भण्डार खण्ड, मुरादाबाद के अन्तर्गत विद्युत भण्डार केन्द्रों पर अनिन शमन वंत्रों के ओवरहालिंग, पेंटिंग तथा रिफिलिंग का कार्य करने हेतु मोहरबन्द निविदा आमंत्रित है:- (1) ई-निविदा सं0-02 / वि०भ० ख० / मुरा0 / 2022 - 2023, अनिन शमन वंत्रों के ओवरहालिंग, पेंटिंग तथा रिफिलिंग का कार्य धरोहर राशि ₹0 - 5000/-, निविदा प्रत्र मूल्य ₹0 - 590 / - (कर सहित) ई-निविदा खुलने का दिनांक :- 15.04.2023, अद्योहस्ताक्षरताओं द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु अनुभवी एवं प्रतिष्ठित ठेकेदारों जिनका आवश्यक, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में पंजीकरण तथा सम्बन्धित निविदा में बर्णित अर्हता को पूर्ण करते हो, के द्वारा ई-निविदा के माध्यम से दो भागों में आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 15.04.2023 को प्रातः 13:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल (<https://www.etender.up.nic.in>) पर भरी जा सकती है तथा निविदा को उसी दिन सायः 15:00 बजे इस कार्यालय में खोला जायेगा। यदि उस दिन अवकाश हुआ तो यह निविदा आगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि एनईईएफ001 / आर001जीएस0 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, मुरादाबाद के बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिविल लाईन मुरादाबाद के खाता संख्या - 2540002100008006 (आईएफएससी न0- PUNB0254000) में जमा करारक बैंक जमा का सक्षय यथा योज्य यूपी0आर0 संख्या, पे-इन- स्लिप की प्रति अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ निविदा के प्रथम भाग में अपलोड किया जाना आवश्यक है तथा निविदा के द्वितीय भाग में सिर्फ दरे भरी जायेगी। निविदा प्रपत्रों की बिक्री केवल जीएसटी0 में पंजीकृत फर्मों की ही स्वीकार की जायेगी। अधोहस्ताक्षरता को बिना कारण बताये सम्स्त अथवा निविदा के किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। निविदा सम्बन्धी विस्तृत सूचना (<https://www.etender.up.nic.in>) तथा निगम की वेबसाइट www.pvvn.org पर देखी जा सकती है तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन / विस्तार के लिये निविदा खुलने की तिथि से पहले तक लॉग ऑन करे। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, मुरादाबाद, पत्रांक- 155/वि.भ.ख.मु., दिनांक- 13.03.2023 "राष्ट्रहित में बिजली बचायें"

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ई-निविदा सूचना

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड मुरादाबाद हेतु एक नग डीजल चालित चार पहिया हल्का वाहन/कार मय चालक क्रिये पर रखने हेतु मोहर बन्द निविदाये आमंत्रित है :- (1) ई-निविदा सं0-01/वि०भ०ख०/मुरा0/2022 2023 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड मुरादाबाद हेतु एक नग डीजल चालित वाहन / कार मय चालक के क्रिये पर रखने का कार्य। धरोहर राशि ₹0-3000 / - निविदा प्रत्र मूल्य ₹0-590 / - (कर सहित) ई-निविदा खुलने का दिनांक :- 05.04.2023, अधोहस्ताक्षरताओं द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु अनुभवी एवं प्रतिष्ठित ठेकेदारों जिनका आवश्यक, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी0) में पंजीकरण तथा सम्बन्धित निविदा में बर्णित अर्हता को पूर्ण करते हो, के द्वारा ई-निविदा के माध्यम से दो भागों में आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 05.04.2023 13:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल (<https://www.etender.up.nic.in>) पर भरी जा सकती है तथा निविदा का भाग-1 उसी दिन सायः 15:00 बजे इस कार्यालय में खोला जायेगा। यदि उस दिन अवकाश हुआ तो यह निविदा आगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि एनईईएफ001 / आर001जीएस0 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, मुरादाबाद के बैंक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सिविल लाईन, मुरादाबाद के खाता संख्या- 2540002100008006 (आईएफएससी कोड - PUNB0254000) में जमा करारक बैंक जमा का सक्षय यथा योज्य यूपी0आर0 संख्या, पे-इन- स्लिप की प्रति अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ निविदा के प्रथम भाग में अपलोड किया जाना आवश्यक है तथा निविदा के द्वितीय भाग में सिर्फ दरे भरी जायेगी। निविदा प्रपत्रों की बिक्री केवल जीएसटी0 में पंजीकृत फर्मों की ही स्वीकार की जायेगी। अधोहस्ताक्षरता को बिना कारण बताये सम्स्त अथवा निविदा के किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। निविदा सम्बन्धी विस्तृत सूचना (<https://www.etender.up.nic.in>) तथा निगम की वेबसाइट www.pvvn.org पर देखी जा सकती है तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन / विस्तार के लिये निविदा खुलने की तिथि से पहले तक लॉग ऑन करे। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, मुरादाबाद, पत्रांक- 154/वि.भ.ख.मु., दिनांक- 13.03.2023 "राष्ट्रहित में बिजली बचायें"

CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR MUNICIPAL CORPORATION, CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR, MAHARASHTRA

No./AMC/PMAY/2023/298 **E-Tender Notice** Date - 10/03/2023

Municipal Commissioner invites Proposal (RFP) under Pradhan Mantri Awas Yojana (U) (PMAY) vertical no. 3 for affordable housing project in Public Private Partnership mode on Govt. Land based model No.5 (DROH) at below Locations. Details regarding said work is available on <https://www.mahatenders.gov.in> from date 13/03/2023 to 05/04/2023

Sr.No.	Locations	Tender ID	Tender Fee	EMD
1	Sundarwadi Gut No. 9, 10	2023_AMCA_883617_1	Rs. 11,800/-	Rs. 50.00 Lakhs
2	Tisgaon Gut No. 225/1	2023_AMCA_883647_1	Rs. 11,800/-	Rs. 50.00 Lakhs
3	Tisgaon Gut No. 227/1	2023_AMCA_883667_1	Rs. 11,800/-	Rs. 50.00 Lakhs
4	Padegaon Gut No. 69	2023_AMCA_883690_1	Rs. 11,800/-	Rs. 22.70 Lakhs

Sd/-
Commissioner and Administrator
Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation

RAJASTHAN POLICE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD. (FORMERLY KNOWN AS RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED)

(Government of Rajasthan Undertaking), CIN No. U45201RJ2013SGC043014, Regd. Office : 756, Police Head Quarter, LalKothi, Jaipur (Raj.), Phone: 0141-2740784, Fax: 0141-2744254, e-mail: ripdcl@rajasthan.gov.in

डिनांक :- RPHCL/469/NIT/2022-23/D-666 दिनांक :- 20/02/2023

ई-निविदा सूचना सं0 27/2022-23

निम्नलिखित कार्य के लिये योग्य एवं अनुभवी आर्किटेक्ट/चरल कन्सल्टेंट, आर्किटेक्ट/चरल / इंजिनियरिंग कन्सल्टेंट/सी फर्मों से निर्धारित प्रत्र में एमपैलमेन्ट हेतु निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धित जानकारी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in भी उपलब्ध रहेगी। इच्छुक फर्मों को निविदा संबंधित जानकारी प्रबन्ध निदेशक कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। मन्थन में निविदाओं में संशोधन होने पर उपरोक्त वेबसाइटों पर ही प्रेषित किया जावेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा शुल्क (₹.)	प्रोसेसिंग फीस (₹.)	निविदा प्रत्र प्राप्त की तिथि	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	अवधि
1	Empanelment of Architectural consultant, Architectural/Engineering Consultant Firms in RPIDCL	1000/-	5000/- (Non Refundable)	21.02.2023 to 14.03.2023 Up to 2.00 PM	14.03.2023 Up to 3.00 PM	02 Years

UBN No. RID22235SOB00334

निविदा संबंधित जानकारी आरपीआईडीसीएल कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

- आर्किटेक्ट/चरल कन्सल्टेंट, आर्किटेक्ट/चरल / इंजिनियरिंग कन्सल्टेंट फर्म का सेवाकर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- आर्किटेक्ट/चरल कन्सल्टेंट, आर्किटेक्ट/चरल / इंजिनियरिंग कन्सल्टेंट फर्म के सभी सदस्यों का भारतीय वास्तुकार परिषद् से निविदा जमा करने की दिनांक से पांच वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- आर्किटेक्ट/चरल कन्सल्टेंट, आर्किटेक्ट/चरल / इंजिनियरिंग कन्सल्टेंट फर्म का आय कर विभाग से पंजीकरण आवश्यक है एवं पिछले पांच वर्षों में जमा आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि जमा करवाना आवश्यक है।
- आर्किटेक्ट/चरल कन्सल्टेंट / आर्किटेक्ट/चरल कन्सल्टेंट फर्म को घोरोहर राशि RTGS/NEFT/IMPS के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक के बैंक खाते में जमा करवाना होगा।
- आर्किटेक्ट/चरल कन्सल्टेंट, आर्किटेक्ट/चरल / इंजिनियरिंग कन्सल्टेंट फर्म का पी.एफ. नम्बर होना अनिवार्य है।
- आर्किटेक्ट/चरल कन्सल्टेंट, आर्किटेक्ट/चरल / इंजिनियरिंग कन्सल्टेंट फर्म का जी.एस.टी. नम्बर होना अनिवार्य है।
- सभी शर्तें अधिकारिक निविदा प्रत्र के अनुसार मान्य होंगी।
- निविदादाता द्वारा निम्नलिखित राशि प्रबन्ध निदेशक कार्यालय के Account no. 0298102000026035, IDBI Bank, Tonk Road, Jaipur IFS Code: IBKL0000298 by RTGS/NEFT/IMPS में नियमानुसार जमा करवानी होगी, जिसकी सूचना भी निविदा प्रत्र के साथ जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	मुगतान का प्रकार	पक्ष में देय
1	निविदा शुल्क	1000/-	RTGS/NEFT/IMPS	प्रबन्ध निदेशक
2	प्रोसेसिंग शुल्क	5000/-	RTGS/NEFT/IMPS	प्रबन्ध निदेशक
	कुल योग	6000/-		

- आवश्यक मूल दस्तावेज को परीक्षण करने हेतु तकनीकी समिति द्वारा आवश्यकतानुसार कमी भी निविदादाता से मांगे जा सकते हैं।
- निविदा में संशोधन निविदा जारी करने के उपरान्त www.police.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर वेबसाइट पर ही जारी किये जायेंगे। निविदादाताओं द्वारा वेबसाइट पर संशोधन / स्पष्टीकरणों को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- किसी कारणवश निविदा प्रत्र करने की तिथि पर अवकाश घोषित होने पर निविदा प्राप्ति की तिथि आगामी कार्यदिवस को पूर्व में निर्धारित समयानुसार होगी।

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान पुलिस आयातक संवहन विकास निगम लिमिटेड
कम.सं.वा.ए/सी/22/15813

JUBILANT PHARMOVA

जुबिलेंट फार्मावा लिमिटेड
(सीआईएन: L24116UP1978PLC004624)

पंजीकृत कार्यालय: भारतियाग्राम, गजरोला, जिला अमरोहा - 244 223, उत्तर प्रदेश, भारत

ई-मेल: investors@jubl.com, वेबसाइट: www.jubilantpharmova.com

फोन: + 91-5924-267437

डाक मतपत्र की सूचना

सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 एवं धारा 110 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 44, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र (एमसीए परिपत्र) संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 तथा 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित अन्य प्रासंगिक परिपत्रों, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 तथा 11/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 सहित, एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों तथा सूचीकरण विनियमों, परिपत्रों एवं इनके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं (किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा यथा समय उनके पुनः अधिनियमन सहित), कम्पनी ने श्री शिरीष जी. बेलापुरे की स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्ति हेतु विशेष प्रस्ताव द्वारा कम्पनी के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु, 13 मार्च, 2023 को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से ई-मेल द्वारा डाक मतपत्र सूचना दिनांकित 7 मार्च, 2023 एवं ई-वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी सहित पासवर्ड उन सदस्यों, जिन्होंने 3 मार्च, 2023 (कट-ऑफ तिथि) के अनुसार डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या कम्पनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराया हुआ है, को भेज दिया है।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री रुपिंदर सिंह माटिया, संचायक/सहायक कम्पनी सचिव, (सदस्यता संख्या FCS-2599, CP-2514), को डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन हेतु सवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है।

सदस्य केवल ई-वोटिंग के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति प्रदान करने में सक्षम होंगे। कम्पनी ने ई-व